



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 18, संख्या 35.

30 अगस्त 2003

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां

(करोड़ रुपये)

मद	2002	2003		घट-बढ़	
	23 अगस्त	15 अगस्त	22 अगस्त #	सप्ताह	वर्ष
1	2	3	4	5	6
जारी नोट	2,53,939	2,90,779	2,88,115	-2,664	34,176
संचलन में नोट	2,53,894	2,90,761	2,88,102	-2,659	34,208
बैंकिंग विभाग में रखे नोट	46	18	13	-5	-33
जमाराशियां					
केन्द्र सरकार	101	101	100	-1	-1
राज्य सरकार	41	41	41	—	—
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	67,117	75,229	69,665	-5,564	2,548
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	1,618	1,607	1,557	-50	-61
अन्य बैंक	3,523	4,360	4,217	-143	694
अन्य	7,219	8,038	8,022	-16	803
अन्य देयताएं	1,12,006	1,14,500	1,10,871	-3,629	-1,135
कुल देयताएं / आस्तियां	4,45,564	4,94,654	4,82,588	-12,066	37,024
विदेशी मुद्रा आस्तियां ⁽¹⁾	2,80,336	3,75,475	3,75,740	265	95,404
सोने के सिक्के और सोना-चांदी ⁽²⁾	15,814	16,740	16,740	—	926
रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1,30,808	83,131	69,469	-13,662	-61,339
ऋण और अग्रिम					
केन्द्र सरकार	1,044	—	—	—	-1,044
राज्य सरकारें	2,371	3,931	5,279	1,348	2,908
नाबार्ड	4,475	1,576	2,082	506	-2,393
अनुसूचित वाणिज्य बैंक	15	1	1	—	-14
अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	17	7	6	-1	-11
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—
भारतीय निर्यात-आयात बैंक	—	—	—	—	—
अन्य	1,228	1,180	1,151	-29	-77
खरीदे और भुनाये गये बिल					
वाणिज्यिक	—	—	—	—	—
खजाना	—	—	—	—	—
निवेश ⁽³⁾	4,373	4,473	4,473	—	100
अन्य आस्तियां	5,085	8,142	7,648	-494	2,563

(1) विदेशी प्रतिभूतियां, विदेशों में रखी गयी राशियां और विदेशी शेयरों / बांडों में किये गये निवेश शामिल हैं। (2) 17 अक्टूबर 1990 से स्वर्ण का मूल्य निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्यों के आसपास किया जाता है। (3) इसमें विदेशी शेयरों और बांडों तथा भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में किये गये निवेश शामिल नहीं हैं।

2. विदेशी मुद्रा भण्डार

मद	22 अगस्त 2003 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़							
			सप्ताह		मार्च 2003 की समाप्ति पर		दिसम्बर 2002 की समाप्ति पर		वर्ष	
	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.	करोड़ रुपये	मिलियन अ.डा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कुल भण्डार	3,92,496	85,563	273	148	34,216	10,135	54,147	15,118	96,298	24,528
जिसमें से :										
(क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	3,75,740	81,932	265	147*	34,264	10,042	53,966	14,938	95,404	24,155
(ख) स्वर्ण	16,740	3,628	—	—	—45	94	198	184	926	380
(ग) विशेष आहरण अधिकार	16	3	8	1	—3	—1	—17	—4	—32	—7
जापान मद : आरटीपी **	4,392	958	—55	—11	1,202	286	1,211	296	1,275	316

* : अ.डा. के रूप में दर्शायी गयी विदेशी मुद्रा आस्तियों में भण्डार में रखी गयी अमरीकी मुद्राओं से इतर मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन) में होनेवाली मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है। विस्तृत विवरण के लिए कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन का वर्तमान सांख्यिकी खंड देखें।

** : विदेशी मुद्रा भण्डार में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) के पास रखे भारत के प्रारक्षित अंश की स्थिति (आरटीपी) शामिल नहीं है। आइएमएफ के साथ वित्तीय लेनदेन योजना के अंतर्गत भारत के लेनदेनों तथा साथ ही रुपया और अमरीकी डालर की तुलना में एसडीआर विनिमय दरों में परिवर्तनों के कारण आरटीपी में समय-समय पर परिवर्तन हो सकता है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक - भारत में कारोबार

(करोड़ रुपये)

मद	8 अगस्त 2003 को बकाया #	घटबढ़				
		पखवाड़ा	अब तक के वित्त वर्ष		वर्ष-दर-वर्ष	
			2002-2003	2003-2004	2002	2003
1	2	3	4	5	6	7
बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	38,631	405	6,448	-1,824	2,316	754
बैंकों से उधार ⁽¹⁾	17,883	-1,007	-832	-1,755	2,307	-1,534
अन्य मांग और मीयादी देयताएं ⁽²⁾	2,564	96	-188	310	520	528
अन्यों के प्रति देयताएं						
कुल जमाराशियां@	13,56,246	6,274	1,10,873	75,393	1,89,290	1,42,013
		(0.5)	(10.0)	(5.9)	(18.5)	(11.7)
			[10.5]	[6.1]	[19.3]	[12.1]
मांग	1,72,922	-1,293	-5,163	2,632	9,532	25,037
मीयादी @	11,83,325	7,567	1,16,037	72,761	1,79,758	1,16,976
उधार ⁽³⁾	16,599	679	6,463	3,961	7,535	7,107
अन्य मांग और मीयादी देयताएं	1,30,117	3,134	-3,048	311	13,955	21,282
रिजर्व बैंक से उधार	191	190	-3,586	112	-1,866	161
पास में नकदी एवं रिजर्व बैंक के पास शेष	72,585	-9,565	7,801	6,683	5,452	-3,864
पास में नकदी	8,742	-524	-183	1,174	225	2,680
रिजर्व बैंक के पास शेष	63,843	-9,040	7,984	5,509	5,227	-6,543
बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
अन्य बैंकों में जमाशेष ⁽⁴⁾	15,849	353	-136	-1,339	1,141	-2,008
मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	27,506	-649	1,633	-4,629	-498	-751
बैंकों को अग्रिम	7,035	-712	181	-111	3,787	1,281
अन्य आस्तियां	2,944	311	-290	395	548	561
निवेश⁽⁵⁾	6,17,110	9,422	52,861	69,564	85,807	1,25,980
		(1.6)	(12.1)	(12.7)	(21.2)	(25.7)
सरकारी प्रतिभूतियां	5,89,458	9,268	54,020	66,042	88,983	1,24,263
अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	27,651	154	-1,159	3,522	-3,176	1,717
बैंक ऋण	7,28,675	1,273	63,837	-541	1,25,443	75,115
		(0.2)	(10.8)	(-0.1)	(23.8)	(11.5)
खाद्य ऋण	43,251	-26	4,875	-6,228	7,669	-15,602
खाद्येतर ऋण	6,85,424	1,299	58,962	5,687	1,17,774	90,717
ऋण, कैश-क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट	6,84,947	1,340	64,178	2,875	1,22,918	73,162
देशी बिल - खरीदे गये	5,123	322	-651	-461	-347	743
भुनाये गये ⁽⁶⁾	19,285	-160	325	-899	688	677
विदेशी बिल - खरीदे गये	8,786	-357	233	-964	570	-536
भुनाये गये	10,534	127	-248	-1,090	1,614	1,068
नकद-जमा अनुपात	5.35					
निवेश-जमा अनुपात	45.50					
ऋण-जमा अनुपात	53.73					

@ : इसमें 28 अगस्त 1998 से रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड से हुए 17,945 करोड़ रुपये के आगम तथा 17 नवम्बर 2000 से इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट से हुए 25,662 करोड़ रुपये के आगम भी शामिल हैं। इटैलिक में दिये गये आंकड़े रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड तथा इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट को छोड़कर निवल राशियों में हुआ प्रतिशत घट-बढ़ दर्शाते हैं।

(¹) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा अपने प्रायोजक बैंकों से लिये गये उधारों को छोड़कर। (²) जहां बैंकिंग प्रणाली के प्रति किसी देयता को पहचानना सम्भव नहीं हुआ है वहां इसे 'अन्यों के प्रति देयताएं' की तदनुसूची में शामिल कर लिया गया है। (³) भारतीय रिजर्व बैंक, आइडीबीआई, नाबार्ड और एक्जिम बैंक से इतर। (⁴) चालू खाते तथा अन्य खाते में। (⁵) इस सारणी में दिये गये निवेश एसएलआर प्रयोजन के लिए हैं और इसमें सारणी 5 में अलग से दिये गये अन्य निवेश शामिल नहीं हैं। (⁶) इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के पास पुनः भुनाये गये बिल शामिल नहीं हैं।

कोष्ठकों के आंकड़े संबंधित अवधि में प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

टिप्पणी : 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल है।

4. प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात और ब्याज दरें

(प्रतिशत वार्षिक)

मद / सप्ताहांत	2002	2003					
	16 अगस्त	11 जुलाई	18 जुलाई	25 जुलाई	1 अगस्त	8 अगस्त	15 अगस्त
1	2	3	4	5	6	7	8
प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (प्रतिशत) ⁽¹⁾	5.00	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
बैंक दर	6.50	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
आइडीबीआई ⁽²⁾	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
मूल उधार दर ⁽³⁾	11.00-12.00	10.50-11.50	10.50-11.50	10.50-11.50	10.50-11.50	10.50-11.50	10.50-11.50
जमा दर ⁽⁴⁾	7.00-8.25	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00	5.00-6.00
मांग मुद्रा दर (न्यून/उच्च) ⁽⁵⁾							
- लिये गये उधार	4.25/6.00	2.25/5.25	3.95/5.15	3.75/5.10	3.00/5.50	3.00/6.25	3.50/5.50
- दिये गये उधार	4.25/6.55	2.25/5.25	3.95/5.15	3.90/5.25	3.00/5.10	3.00/6.25	3.50/5.50

(¹) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) से संबंधित प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात। (²) न्यूनतम मीयादी उधार दर (एमटीएलआर)। (³) पांच मुख्य बैंकों से संबंधित मूल उधार दर। (⁴) एक वर्ष से अधिक परिपक्वतावाली मीयादी जमाराशियों के लिए प्रमुख बैंकों की जमा दर। (⁵) इन आंकड़ों में सहभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेनों का 90-95 प्रतिशत आ जाता है।

5. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण तथा शेयरों/डिबेंचरों/बाण्डों/वाणिज्य पत्र आदि में निवेश के रूप में दी गई वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये)

मद	2003 - 2004			2002 - 2003		
	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (3)-(2)	निम्नलिखित को बकाया		घट-बढ़ (6)-(5)
	2003			2002		
	21 मार्च	8 अगस्त		22 मार्च	9 अगस्त	
1	2	3	4	5	6	7
1. बैंक ऋण	7,29,215	7,28,675	-541 (-0.1)	5,89,723	6,53,560	63,837 (10.8)
अ. खाद्य ऋण	49,479	43,251	-6,228	53,978	58,853	4,875
आ. खाद्येतर ऋण	6,79,736	6,85,424	5,687 (0.8)	5,35,745	5,94,707	58,962 (11.0)
2. निवेश	92,854	88,390@	-4,463	81,000	86,437 +	5,437
अ. वाणिज्यिक पत्र	4,007	3,697	-309	8,497	6,908	-1,589
आ. निम्न द्वारा जारी शेयर (क+ख)	9,019	8,655	-365	5,914	9,116	3,203
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	1,430	1,387	-43	1,587	1,453	-134
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	7,589	7,267	-322	4,327	7,664	3,337
इ. निम्न द्वारा जारी बाण्ड/ डिबेंचर (क+ख)	79,828	76,039	-3,789	66,589	70,413	3,824
क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	46,854	46,078	-777	39,520	38,627	-893
ख) निजी कंपनी क्षेत्र	32,973	29,961	-3,012	27,069	31,786	4,717
3. वित्तीय संस्थाओं के पास पुनःभुनाये गये बिल	105	393 @@	288	906	701 ++	-205
4. कुल (1आ+2+3)	7,72,695	7,74,207	1,512	6,17,650	6,81,844	64,194

@ : 25 जुलाई 2003 तक.

@@ : 30 जून 2003 तक.

+ : 26 जुलाई 2002 तक

++ : 30 जून 2002 तक.

टिप्पणी : 1. निवेश संबंधी आंकड़े सांविधिक धारा 42 (2) के अंतर्गत प्राप्त विवरणियों पर आधारित हैं।

2. कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े प्रतिशत घटबढ़ दर्शाते हैं।

3. इनमें 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल है।

6. विदेशी मुद्रा दरें - हाजिर और वायदा प्रीमियम

विदेशी मुद्रा	2002		2003					2002	2003					
	23 अगस्त	18 अगस्त	19 अगस्त	20 अगस्त	21 अगस्त	22 अगस्त		23 अगस्त	18 अगस्त	19 अगस्त	20 अगस्त	21 अगस्त	22 अगस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
भारतीय रिजर्व बैंक की संदर्भ दर (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)								विदेशी मुद्रा प्रति रु. 100@ (मध्य दरों पर आधारित)						
अमरीकी डालर	48.5200	45.8600	45.8400	45.8200	45.8400	45.8600								
यूरो	46.9700	51.4800	50.9700	50.9300	50.7200	50.0100								
फेडराल की सांकेतिक दरें (रु. प्रति विदेशी मुद्रा)														
अमरीकी डालर { खरीद	48.5200	45.8450	45.8400	45.8200	45.8300	45.8600		2.0610	2.1805	2.1815	2.1825	2.1815	2.1805	
{ बिक्री	48.5300	45.8550	45.8500	45.8300	45.8400	45.8700								
पौण्ड { खरीद	73.7075	73.1600	72.6575	72.7750	72.8375	72.2700		1.3570	1.3666	1.3751	1.3753	1.3719	1.3837	
स्टर्लिंग { बिक्री	73.7450	73.2025	72.7000	72.8200	72.8725	72.3100								
यूरो { खरीद	46.9225	51.4850	50.8500	50.9700	50.5725	50.0325		2.1290	1.9425	1.9619	1.9635	1.9716	1.9996	
{ बिक्री	46.9825	51.5100	50.8800	50.9950	50.6025	50.0675								
100 येन { खरीद	40.3825	38.3675	38.3575	38.6725	38.7875	38.9300		247.58	260.47	260.49	258.49	257.76	257.00	
{ बिक्री	40.4025	38.3850	38.3800	38.6975	38.8200	38.9500								
अमरीकी डालर का अंतर-बैंक वायदा प्रीमियम (प्रतिशत वार्षिक)														
1 - माह	3.96	3.66	3.93	3.67	3.66	3.66								
3 - माह	3.96	2.53	2.53	2.44	2.36	2.35								
6 - माह	4.08	2.01	2.05	2.01	1.96	1.92								

@ : ये दरें अमरीकी डालर के लिए रिजर्व बैंक की संदर्भ दर और परस्पर लेनदेन मुद्रा भाव की मध्य दरों पर आधारित हैं। 29 जनवरी 1998 से लागू ये दरें रिजर्व बैंक द्वारा घोषित हैं।

टिप्पणी : 1. एकीकृत विनिमय दर प्रणाली 1 मार्च 1993 से लागू हुई।

2. रिजर्व बैंक द्वारा 1 जनवरी 2002 से यूरो संदर्भ दर घोषित की गई।

7. मुद्रा स्टाक : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2003		पखवाड़ा		वित्त वर्ष - अब तक				वर्ष - दर - वर्ष			
					2002-2003		2003-2004		2002		2003	
	31 मार्च #	8 अगस्त #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
एम ₃	17,25,222 [16,95,551]	18,18,091	7,794	0.4	1,33,063 [94,855]	8.9 [6.3]	92,869	5.4	2,37,542 [1,99,334]	17.0 [14.3]	1,86,673	11.4
घटक (i+ii+iii+iv)												
(i) जनता के पास मुद्रा	2,70,983	2,86,044	2,224	0.8	13,532	5.6	15,061	5.6	30,910	13.8	31,717	12.5
(ii) बैंकों के पास मांग जमा	1,98,602	2,00,460	-1,427	-0.7	-6,172	-3.4	1,858	0.9	11,250	7.0	27,432	15.9
(iii) बैंकों के पास मीयादी जमा @	12,52,396 [12,22,725]	13,27,152	7,398	0.6	1,25,001 [86,793]	11.6 [8.1]	74,756	6.0	1,95,277 [1,57,069]	19.4 [15.6]	1,26,639	10.5
(iv) रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,242	4,436	-402	-8.3	701	24.6	1,194	36.8	105	3.0	885	24.9
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को निवल बैंक ऋण (क+ख)	6,78,059	7,16,342	-1,112	-0.2	57,956	9.8	38,284	5.6	84,465	15.0	68,822	10.6
(क) रिज़र्व बैंक	1,20,679	85,716	-10,990	-11.4	1,959	1.3	-34,963	-29.0	-11,921	-7.2	-68,421	-44.4
(ख) अन्य बैंक	5,57,379	6,30,626	9,878	1.6	55,997	12.8	73,247	13.1	96,386	24.3	1,37,243	27.8
(ii) वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण (क+ख)	9,06,612	9,10,075	1,367	0.2	63,122	8.3	3,464	0.4	1,31,267	19.0	87,306	10.6
(क) रिज़र्व बैंक	3,048	3,447	502	17.0	-2,991	-50.5	399	13.1	-5,335	-64.5	510	17.4
(ख) अन्य बैंक	9,03,564	9,06,628	865	0.1	66,113	8.8	3,065	0.3	1,36,602	20.0	86,796	10.6
(iii) बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3,93,715	4,26,712	-743	-0.2	32,251	10.4	32,997	8.4	88,514	34.7	83,426	24.3
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	7,071	7,073	—	—	300	4.7	1	—	1,026	18.2	407	6.1
(v) बैंकिंग क्षेत्र की मीयादी जमा से भिन्न निवल मुदेतर देयताएं	2,60,234	2,42,111	-8,281	-3.3	20,565	12.2	-18,123	-7.0	67,730	55.9	53,288	28.2
उनमें से : रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1,27,141	1,18,983	-4,714	-3.8	18,474	18.3	-8,159	-6.4	26,762	28.8	-710	-0.6

@ : इसमें रिसर्जेंट इंडिया बाण्ड के माध्यम से 28 अगस्त 1998 से प्राप्त रु.17,945 करोड़ और इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट के माध्यम से 17 नवम्बर 2000 से प्राप्त रु.25,662 करोड़ की राशि शामिल है।

[] में दिये गये आंकड़ों में 3 मई 2002 से हुए विलयों का प्रभाव शामिल नहीं है।

31 मार्च 2003 को सरकारी शेष राशियां लेखा-बंदी से बाद की हैं।

8. प्रारक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को बकाया		निम्न की तुलना में घट-बढ़									
	2003		सप्ताह		वित्त वर्ष - अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2002-2003		2003-2004		2002		2003	
	31 मार्च #	22 अगस्त #	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
प्रारक्षित मुद्रा	3,69,061	3,75,001	-8,432	-2.2	-1,519	-0.4	5,939	1.6	28,418	9.2	38,550	11.5
घटक (i+ii+iii)												
(i) संचलन में करेंसी	2,82,473	2,95,175	-2,659	-0.9	9,648	3.8	12,702	4.5	32,183	14.1	34,553	13.3
(ii) रिज़र्व बैंक के पास बैंकों की जमा	83,346	75,439	-5,757	-7.1	-11,889	-14.1	-7,907	-9.5	-3,683	-4.8	3,181	4.4
(iii) रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमा	3,242	4,387	-16		722		1,145		-83		816	
स्रोत (i+ii+iii+iv+v)												
(i) सरकार को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया निवल ऋण :												
जिसमें से - केन्द्र को	1,20,679	74,786	-12,318	-14.1	-17,971	-11.8	-45,894	-38.0	-21,926	-14.0	-59,421	-44.3
	1,12,985	69,548	-13,666		-9,506		-43,436		-20,485		-62,329	
(ii) बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण - जिसमें से: बैंकों को (नाबार्ड सहित)	10,208	6,263	477	8.2	-8,019	-48.1	-3,946	-38.7	-10,990	-55.9	-2,395	-27.7
	7,160	3,312	506		-5,016		-3,848		-4,659		-2,420	
(iii) रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3,58,244	3,92,463	266	0.1	32,163	12.2	34,219	9.6	84,345	39.8	96,331	32.5
(iv) जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	7,071	7,073	—		362		1		1,007		344	
(v) रिज़र्व बैंक की निवल मुदेतर देयताएं	1,27,141	1,05,583	-3,144		8,054		-21,558		24,018		-3,691	

9. चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो/रिवर्स रेपो की नीलामी

(करोड़ रुपये)

च.समा.सु. तारीख	रेपो/रिरेपो अवधि (दिन)	रेपो					रिवर्स रेपो					प्रणाली में डाली (+)/से निकाली गयी (-) निवल चलनिधि (11-6)	बकाया राशि @
		प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		न्यूनतम दर (%)	प्राप्त बोलियां		स्वीकृत बोलियां		न्यूनतम दर (%)		
		सं.	राशि	सं.	राशि		सं.	राशि	सं.	राशि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18 अगस्त 2003	1	31	13,825	31	13,825	5.00	—	—	—	—	—	-13,825	34,655
19 अगस्त 2003	1	33	17,800	32	17,750	5.00	—	—	—	—	—	-17,750	38,580
20 अगस्त 2003	1	31	17,165	31	17,165	5.00	—	—	—	—	—	-17,165	37,995
21 अगस्त 2003	1	30	16,940	30	16,940	5.00	—	—	—	—	—	-16,940	37,770
22 अगस्त 2003	3	38	14,810	38	14,810	5.00	—	—	—	—	—	-14,810	35,640

@ : रिवर्स रेपो को घटाकर। इसमें 14-दिवसीय रिपो शामिल हैं। '—' : नीलामी में कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।

10. 91-दिवसीय भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			पर भार		कुल निर्गम (8+9+ 10+11)	भारित औसत मूल्य	न्यूनतम मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य		प्रा.व्यापारी / अनुबंधी व्यापारी*	भारि बैंक				
				प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी		प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2002-2003 1 जन.	3 जन.	1,000	49	3,385	400	33	1,000	400	—	—	1,400	98.67	5.4328	7,600
2003-2004 1 अप्रैल	4 अप्रैल	500	32	950	—	20	500	—	—	—	500	98.66	5.4739	8,727
2 जुलाई	4 जुलाई	500	31	778	—	25	500	—	—	—	500	98.77	5.0223	7,488
20 अगस्त	22 अगस्त	1,500	40	1,957	—	31	1,500	—	—	—	1,500	98.77	4.9813	10,338

* : 14 मई 1999 की नीलामी से प्रभावी, भार (डिवाल्मेंट) की राशि केवल भारिबैंक पर होगी।

टिप्पणी : एक समान मूल्यों पर नीलामी 6 नवम्बर 1998 से शुरू की गई। 11 दिसंबर 2002 से नीलामी का फार्मेट बहुविध मूल्य पर नीलामी में परिवर्तित कर दिया गया है।

11. 364-दिवसीय भारत सरकार खजाना बिलों की नीलामी

(करोड़ रुपये)

नीलामी की तारीख	निर्गम की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			पर भार		कुल निर्गम (8+9+ 10+11)	भारित औसत मूल्य	न्यूनतम मूल्य पर निहित आय (प्रतिशत)	निर्गम की तारीख को बकाया राशि (अंकित मूल्य)
			सं.	कुल अंकित मूल्य		सं.	कुल अंकित मूल्य		प्रा.व्यापारी / अनुबंधी व्यापारी*	भारि बैंक				
				प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी		प्रति-स्पर्धी	अप्रति-स्पर्धी						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2002-2003 8 जन.	10 जन.	1,000	51	2,245	—	20	1,000	—	—	—	1,000	94.90	5.4074	24,870
2003-2004 1 अप्रैल	4 अप्रैल	1,000	55	2,210	—	19	1,000	—	—	—	1,000	94.82	5.4964	26,126
9 जुलाई	11 जुलाई	1,000	51	2,430	29	21	1,000	29	—	—	1,029	95.28	4.9648	26,128
20 अगस्त	22 अगस्त	1,000	64	2,385	—	23	1,000	—	—	—	1,000	95.28	4.9648	26,124

* : 19 मई 1999 की नीलामी से प्रभावी, भार की राशि केवल भारिबैंक पर होगी।

\$: 2 जून 1999 की नीलामी से प्रभावी, अप्रतिस्पर्धी बोलियों की अनुमति दी गई।

12. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भारि बैंक के पास संचयी नकद शेष

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	दिनांक													
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	26 जुलाई	27 जुलाई	28 जुलाई	29 जुलाई	30 जुलाई	31 जुलाई	1 अगस्त	2 अगस्त	3 अगस्त	4 अगस्त	5 अगस्त	6 अगस्त	7 अगस्त	8 अगस्त
8 अगस्त 2003	74,172	1,48,344	2,12,073	2,83,638	3,48,962	4,14,062	4,74,076	5,35,884	5,97,691	6,56,756	7,16,055	7,78,027	8,46,542	9,09,981
22 अगस्त 2003	62,766	1,25,532	1,80,504	2,51,970	3,16,153	3,91,256	4,66,360	5,29,551	5,92,211	6,57,129	7,19,739	7,85,390	8,51,299	9,20,803

टिप्पणी : आंकड़े पखवाड़े के दौरान संचयी आधार पर भारि बैंक के पास रखी जाने वाली अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की कुल नकद से संबंधित हैं।

13. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किये गये जमा प्रमाण-पत्र

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि #	पखवाड़े के दौरान जारी #	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
12 जुलाई 2002	1,312	29	5.21 — 9.10
4 अक्टू. 2002	1,270	169	5.20 — 8.25
10 जन. 2003	1,199	59	4.37 — 6.61
4 अप्रैल 2003	1,188	25	5.25 — 7.40
27 जून 2003	2,183	22	3.74 — 6.50
11 जुलाई 2003	2,242	44	4.45 — 6.25

@ : प्रभावी वार्षिक ब्याज दर दायरा।

14. कम्पनियों द्वारा जारी किये गये वाणिज्यिक पत्र (अंकित मूल्य पर)

(करोड़ रुपये)

को समाप्त पखवाड़ा	कुल बकाया राशि	पखवाड़े के दौरान सूचित	ब्याज दर (प्रतिशत) @
1	2	3	4
15 अक्टू. 2002	8,589	1,134	6.13 — 8.25
15 जन. 2003	8,645	886	5.70 — 7.50
15 अप्रैल 2003	5,839	752	5.25 — 8.15
15 जुलाई 2003	7,069	1,142	5.15 — 6.80
31 जुलाई 2003	7,557	1,399	4.99 — 8.25
15 अगस्त 2003	7,488	1,017	5.10 — 8.25

@ : पखवाड़े के दौरान निर्गमों पर लागू विशिष्ट वार्षिक बढ़ा दर का दायरा।

15. थोक मूल्यों के सूचकांक (आधार : 1993-94=100)

मद / समाप्त सप्ताह	भार	2002	2003		पर प्रतिशत उतार चढ़ाव			
		10 अगस्त	14 जून*	9 अगस्त #	सप्ताह	महीना	मार्च के अंत में	वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
सभी पण्य	100.00	166.9	173.2	173.5	0.1	0.1	0.7	4.0
प्राथमिक वस्तुएं	22.02	174.9	182.7	181.7	0.2	0.4	2.0	3.9
(i) फल और सब्जियां	2.92	197.3	206.7	199.0	1.7	4.6	9.3	0.9
ईंधन, विद्युत, प्रकाश और स्नेहक	14.23	238.0	246.1	247.5	—	0.1	-3.4	4.0
विनिर्मित उत्पाद	63.75	148.2	153.7	154.1	—	—	1.7	4.0
i) चीनी, खांडसारी और गुड़	3.93	138.1	130.5	140.7	0.6	5.8	8.8	1.9
ii) खाद्य तेल	2.76	137.8	155.8	156.5	-0.1	-0.3	3.6	13.6
iii) सीमेंट	1.73	144.9	147.7	145.6	0.3	-0.2	-1.0	0.5
iv) लोहा और इस्पात	3.64	144.5	163.4	166.1	—	0.1	10.6	14.9

* : उपलब्ध अद्यतन अंतिम आंकड़े।

: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

16. साधारण शेयर मूल्यों का बीएसई संवेदी सूचकांक तथा एनएसई निफ्टी सूचकांक - मुंबई

	2002	2003				
	22 अगस्त	18 अगस्त	19 अगस्त	20 अगस्त	21 अगस्त	22 अगस्त
1	2	3	4	5	6	7
बीएसई संवेदी सूचकांक (1978-79=100)	3080.70	3977.73	4006.91	4056.60	4095.39	4125.12
एसएण्डपी सीएनएस निफ्टी (3.11.1995=1000)	985.70	1281.40	1277.70	1287.40	1300.95	1311.15

17. मांग मुद्रा बाजार में औसत दैनिक पण्यवर्त (टर्नओवर)*

(करोड़ रुपये)

	निम्न को समाप्त सप्ताह						
	11 जुलाई 2003	18 जुलाई 2003	25 जुलाई 2003	1 अगस्त 2003	8 अगस्त 2003	15 अगस्त 2003	22 अगस्त 2003
1	2	3	4	5	6	7	8
1. बैंक							
क) लिये गये उधार	3,517	4,671	3,803	3,531	3,409	4,534	3,660
ख) दिये गये ऋण	4,323	4,871	5,007	4,674	3,869	6,360	7,515
2. प्राथमिक व्यापारी							
क) लिये गये उधार	5,162	5,514	6,282	5,262	5,406	6,642	7,939
ख) दिये गये ऋण	190	192	129	166	182	225	96
3. बैंकेतर संस्थाएं							
क) दिये गये ऋण	3,522	3,489	3,510	2,981	3,501	3,503	2,930
4. कुल							
क) लिये गये उधार	8,679	10,185	10,085	8,793	8,815	11,176	11,599
ख) दिये गये ऋण	8,035	8,552	8,646	7,821	7,552	10,088	10,541

* : इनमें प्रतिभागियों द्वारा सूचित कुल लेनदेनों के 90-95 प्रतिशत आंकड़े शामिल हैं।

ये आंकड़े सप्ताह के लिए दैनिक मांग मुद्रा पण्यवर्त का औसत हैं (शनिवार से शुक्रवार)।

18. सरकारी प्रतिभूति बाजार में पण्यवर्त (अंकित मूल्य) @

(करोड़ रुपये)

मद	निम्न को समाप्त सप्ताह					
	18 जुलाई 2003	25 जुलाई 2003	1 अगस्त 2003	8 अगस्त 2003	15 अगस्त 2003	22 अगस्त 2003
1	2	3	4	5	6	7
I. सीधा (आउटराइट) लेनदेन						
क) भारत सरकार दिनांकित प्रतिभूतियां	51,702	87,062	85,759	99,314	1,14,101	79,171
ख) राज्य सरकार प्रतिभूतियां	245	256	682	655	1,506	619
ग) 91 - दिवसीय खजाना बिल	3,131	1,831	2,441	2,594	3,296	2,682
घ) 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,501	2,779	1,555	1,194	2,005	3,005
II. भारतीय रिज़र्व बैंक *	—	—	47	—	—	11,479

@ : रेपो लेनदेनों को छोड़कर।

* : भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद में उसके अन्य कार्यालयों के लेनदेन भी शामिल हैं।

19. विदेशी मुद्रा बाजार में पण्यवर्त (टर्नओवर)

(मिलियन अमरीकी डालर)

निम्नलिखित तारीख को स्थिति	वणिज्य						अंतर-बैंक					
	विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपया			विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा			विदेशी मुद्रा / भारतीय रुपया			विदेशी मुद्रा / विदेशी मुद्रा		
	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	वायदा	वायदा निरसन	हाजिर	स्वैप	वायदा	हाजिर	स्वैप	वायदा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
खरीद												
4 अगस्त 2003	485	119	26	5	20	26	779	1021	27	453	121	5
5 अगस्त 2003	520	151	15	8	153	27	855	1205	28	414	257	4
6 अगस्त 2003	519	168	14	4	68	11	890	1214	71	405	277	26
7 अगस्त 2003	575	162	35	26	26	63	996	1255	71	425	246	2
8 अगस्त 2003	382	269	23	5	7	31	1044	1142	78	442	280	1
बिक्री												
4 अगस्त 2003	444	218	179	3	31	24	729	1041	39	454	110	3
5 अगस्त 2003	381	169	137	6	147	20	905	1323	34	417	249	4
6 अगस्त 2003	522	78	124	8	59	7	930	1103	69	410	271	26
7 अगस्त 2003	321	150	139	23	53	56	992	1100	82	416	201	2
8 अगस्त 2003	312	105	33	9	10	23	1436	1018	55	446	261	1

एफ सी वाय : विदेशी मुद्रा ।

आई एन आर : भारतीय रुपया ।

टिप्पणी : ये आंकड़े वणिज्य और अंतर-बैंक लेन-देन के कारण विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री से संबंधित हैं।

20. राष्ट्रीय शेयर बाजार में हुए कंपनी ऋण कारोबार की साप्ताहिक मात्रा

(करोड़ रुपये)

	समाप्त सप्ताह					
	19 जुलाई 2003	26 जुलाई 2003	2 अगस्त 2003	9 अगस्त 2003	16 अगस्त 2003	23 अगस्त 2003
1	2	3	4	5	6	7
राशि	96.71	100.29	82.80	36.90	40.77	119.24

स्रोत : भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लि.

21. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल (अंकित मूल्य)

(करोड़ रुपये)

धारक	22 अगस्त 2003				कुल खजाना बिलों में घट-बढ़	
	अलग-अलग परिपक्वता वाले खजाना बिल			कुल (2+3+4)	सप्ताह की तुलना में	मार्च के अंत में
	14 दिवसीय (मध्यवर्ती)	91 दिवसीय (नीलामी)	364 दिवसीय (नीलामी)			
1	2	3	4	5	6	7
भारतीय रिजर्व बैंक	—	—	—	—	—	-1,019
बैंक	—	4,821	17,043	21,864	378	-7,029
राज्य सरकारें	3,581	800	—	4,381	-897	-2,013
अन्य	274	4,717	9,081	14,072	1,609	8,918

22. भारत सरकार : दीर्घावधि और मध्यावधि उधार - 2003-04
(भा.रि.बैंक पर भार (डिवाल्मेंट)/ निजी स्थानन तथा खुला बाजार परिचालन में बिक्री / खरीद)

(अंकित मूल्य करोड़ रुपये में)

	जुटायी गयी सकल राशि			जुटायी गयी निवल राशि		
	2003-2004 (22 अगस्त 2003 तक)	2002-2003 (23 अगस्त 2002 तक)	2002-2003	2003-2004 (22 अगस्त 2003 तक)	2002-2003 (23 अगस्त 2002 तक)	2002-2003
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल जिसमें :	88,434*	70,000	1,25,000	56,316	57,595	97,580
1.1 भारिबैं पर भार / निजी स्थानन	5,000	23,175	36,175			
2. भारिबैं के खुला बाजार परिचालन - बिक्री खरीद	5,724	20,583	53,780			
	—	—	—			

* : इनमें रु.14,434 करोड़ शामिल हैं जो सरकारी ऋण पुनर्खरीद योजना के अंतर्गत 22 जुलाई 2003 को पुनः जारी चार प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य है।

23. द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार (अंकित मूल्य) @

(राशि करोड़ रुपये में)

मद	15 अगस्त 2003 को समाप्त सप्ताह			22 अगस्त 2003 को समाप्त सप्ताह		
	राशि	परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**		राशि	परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) सांकेतिक**	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4	5	6	7
I. सीधा (आउटराइट) लेन देन						
1. सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां						
परिपक्वता वर्ष						
2003-04	122	4.7652	4.9453	135	4.9966	5.0465
2004-05	—	—	—	—	—	—
2005-06	32	5.0384	—	119	5.0143	5.0737
2006-07	80	5.0312	5.0843	75	5.0758	5.1227
2007-08	21	5.0973	—	81	5.0951	5.1003
2008-09	1,201	5.1701	5.5563	987	5.1813	5.4414
2009-12	5,696	5.2704	5.7028	3,784	5.0374	5.7963
2012-13	7,702	5.4701	5.5539	3,441	5.4851	5.9234
2013 से आगे	42,196	5.1085	6.1636	30,963	5.5269	6.1661
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	753	5.9803	6.4408	310	5.9601	6.1836
3. खजाना बिल (शेष परिपक्वता अवधि दिनों में)						
क) 14 दिनों तक	900	3.4468	—	29	3.6657	4.9468
ख) 15 - 91 दिन	870	4.3986	4.9410	1,393	4.8270	4.9839
ग) 92 - 182 दिन	214	4.8667	—	87	4.8041	4.9562
घ) 183 - 364 दिन	666	4.8101	4.9464	1,334	4.8403	4.9764
II. भा.रि.बैं. : बिक्री	—			11,479		
: खरीद	—			—		
III. रेपो कारोबार ₹ (भा. रि. बैं. से इतर)						
	राशि	दर (% वार्षिक)		राशि	दर (% वार्षिक)	
		न्यूनतम	अधिकतम		न्यूनतम	अधिकतम
1. भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	23,692	3.75 (1)	4.80 (14)	15,847	3.00 (1)	5.80 (7)
2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	—	—	—	200	4.30 (3)	—
3. 91 - दिवसीय खजाना बिल	1,486	4.10 (1)	4.45 (6)	725	4.25 (1)	5.10 (5)
4. 364 - दिवसीय खजाना बिल	2,099	4.10 (1)	4.90 (6)	832	4.10 (1)	5.00 (7)
IV. भा.रि.बैं. : रेपो ₹^	95,710	5.00	—	80,490	5.00	—
: रिवर्स रेपो !	—	—	—	—	—	—

@ : भा.रि.बैं., मुंबई के एसजीएल खातों में दर्ज सूचना के अनुसार, जो वर्तमान में देश के कुल कारोबार का लगभग 98 प्रतिशत है।

* : भा.रि.बैं. बिक्री और खरीद में अन्य कार्यालयों में हुए लेनदेन भी शामिल हैं।

₹ : कारोबार का पहला चरण (फ्रंट लेग) दर्शाता है।

^ : दिनांक 5 जून 2000 से प्रभावी चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रेपो नीलामी से संबंधित आंकड़े।

! : चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिवर्स रेपो नीलामी शामिल है।

** : न्यूनतम और अधिकतम सांकेतिक परिपक्वता-आय अनुपात (% वार्षिक) मानकेतर आकार समूह (5 करोड़ रुपये से कम) के कारोबार को छोड़कर दर्शाया गया है।

टिप्पणी : कोष्ठकों के आंकड़े रेपो अवधि दर्शाते हैं।

उपर्युक्त जानकारी इंटरनेट पर <http://www.wss.rbi.org.in> से सीधे प्राप्त की जा सकती है।

आंकड़ों के पूर्णांकन के कारण हो सकता है घटक मदों का जोड़ कुल जोड़ से मेल न खाये।

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक में प्रयुक्त प्रतीक .. = अनुपलब्ध - = शून्य / नगण्य # = अंतिम

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक 2003 के लिए वार्षिक शुल्क भारत में **रु.400** (डाक व्यय सहित) और विदेश के लिए **80 अमरीकी डालर** (हवाई डाक प्रभार सहित) है। एक प्रति का मूल्य **रु.8/-** है।

श्री राजीव रंजन द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई - 00 001 के लिए प्रकाशित और उनके द्वारा प्रिंटराइट, 24-बी, अंबालाल दोशी मार्ग, हमाम स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001 में मुद्रित।

पंजीकरण सं.आरएन.43801/86

पंजीकृत सं.

टेक/47-400 / एमबीआइ / 2003-05